Amount

Outstanding

demand Notice

**FINANCIAL EXPRESS** 

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the

property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. "The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IFF HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets

Name of the Borrower(s) Lucknow BRANCH	Description of secured asset (immovable property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand	LUATE OF	
Mr. Sivam Sharma, Sivam	All that piece and parcel of: House Built On Plot	Rs. 14,99,303/-(Rupees	Notice	( vaacaaluli	
Traders & Mrs. Sunita Sharma (Prospect No. IL10104059)	No. 6, Area Measuring 600 Sq Ft, Part Of Khasra No. 466, Situated At Para, Ward Alamnagar, Lucknow Uttar Pradesh, India, 226001		20-Dec- 2021	22-July-22	
Mr. Shanti Prakash Srivastava, Mrs.Meena Srivastava (Prospect No. 760813)		Rs. 18,43,008/- (Rupees Eighteen Lakh Forty Three Thousand Eight Only)	19-Mar- 2020	22-July-22	
Mr. Mohd Rashid and Mrs.Sahina (Prospect No. IL10046623)	All that piece and parcel of: Flat No-703 Tower C, 7Th Floor, Area Admeasuring 1020 Sq. Ft., BCC Greens Apartment, Naubasta Kala Dewa Road, Lucknow, Uttar Pradesh, India, 226001		The Part of the Control of the Contr	23-July-22	
	stact to Authorised Officer at Branch Office: 1017, T Lucknow - 226 010 / or Corporate Office: Plot No. 98 07/2022 Sd/- Aut		aon, Hary	ana.	

(2) GOODLUCK **GOODLUCK INDIA LTD.** Regd. Off: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi -110 001 Website: www.goodluckindia.com | E-mail: goodluck@goodluckindia.com | CIN: L74899DL1986PLC050910 **Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results** 

for the quarter ended on 30<sup>th</sup> June, 2022

	ioi tiio quartoi oiit	104 011 00	Jano, 2022	'	,
		Stand	dalone	Conso	lidated
SI. No.	Particulars	3 months ended on 30/06/2022 (Unaudited)	3 months ended on 30/06/2021 (Unaudited)	3 months ended on 30/06/2022 (Unaudited)	3 months ended on 30/06/2021 (Unaudited)
1	Total income from operations	82,230.67	57,124.10	82,230.67	57,124.10
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,770.99	1,864.23	2,860.43	1,864.12
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,770.99	1,864.23	2,860.43	1,864.12
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,023.09	1,353.82	2,108.51	1,353.71
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,023.09	1,353.82	,	1,353.71
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 2 each)	520.13	490.13	520.13	490.13
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	NA	NA	NA	NA
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinuing operations) Basic :	7.78	5.52	8.11	5.52

l.The above Audited Financial Results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 26.07.2022.

Previous period figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

Place: Ghaziabad

Date: July 26, 2022

Delhi - 110019.

Branch: Meerut Cantt

3. The Statutory Auditor has carried out a Limited Review of the result of the Company

4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial results filed with the stock

exchange as under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and on Company's website (www.goodluckindia.com).

> For Goodluck India Limited Sd/-M C Garq

Chairman DIN:00292437

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

"The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

asset (immovable property)	Dues (Rs.)	Date of Demand	Date of Possession
All that piece and parcel of: Property	Rs. 3,14,71,883/-	Notice	rossession
bearing Municipal House No. 4/142 (new), Old No.171-A, admeasuring 2555.49 sq. yds., bearing Survey No. 283, situated at	(Rupees Three Crore Fourteen Lakh Seventy One Thousand Eight	14-Mar- 2022	23-July-22
Di O yi	II that piece and parcel of: Property earing Municipal House No. 4/142 (new), IId No.171-A, admeasuring 2555.49 sq. ds., bearing Survey No. 283, situated at eela Baluganj, Rakab Ganj Ward, Agra,	If that piece and parcel of: Property earing Municipal House No. 4/142 (new), Rupees Three Crore Fourteen Lakh Seventy ds., bearing Survey No. 283, situated at eela Baluganj, Rakab Ganj Ward, Agra, Hundred Eighty Three	If that piece and parcel of: Property earing Municipal House No. 4/142 (new), (Rupees Three Crore Fourteen Lakh Seventy ds., bearing Survey No. 283, situated at eela Baluganj, Rakab Ganj Ward, Agra,

Vihar, Gurgaon, Haryana Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited Place: Agra Date: 27.07.2022

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of HFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIFI

HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IFL HFL" and no further step shall be taken by "IFL HFL" for transfer or sale of the secured assets. Name of the Borrower(s) Total Outstanding Description of secured Ludhiana &

Call for the control of the control				I MOSSESSION
Jalandhar BRANCH	All that piece and parcel of: House Measuring	Prospect no. IL10024095 Rs.	Notice	r obocoolui
Mrs.Surinder Kaur (Prospect No.	100 Sq. Yards, Khewat No. 2158, Khatoni No. 2837, Comprised Under Khasra No. 136, As Per Jamabandi Year 2010-2011, Page No. 2810, Situated At Village Gill No. 02, Locality Known As Guru Nanak Colony, Tehsil & Dist. Ludhiana. (Punjab).	13,25,075/- (Rupees Thirteen Lakh Twenty Five Thousand Seventy Five Only) Prospect no. IL10100526 Rs. 5,75,021/- (Rupees Five Lakh Seventy Five Thousand Twenty One Only)	2022	22-July-22
Mr. Suresh Kumar Mr. Sohan Lal, and Mrs. Bakhsho (Prospect No. 830433)	admeasuring 140 sq.yds. Prem Colony,	Rs. 8,39,191/- (Rupees Eight Lakh Thirty Nine Thousand One Hundred Ninety One Only)	11-Jan- 2022	22-July-22
Mr Ajay Kumar, Mrs. Renu and Sharma general store. (Prospect No IL10117228)	Sarpanch Colony Churpur Road, Haibowal	Rs. 16,15,077/- (Rupees Sixteen Lakh Fifteen Thousand Seventy Seven Only		22-July-22
Mr. Harpreet Singh, Mrs. Sonali Chandrashekhar Melekar (Prospect No. IL10037869)		Rs. 12,66,101/- (Rupees Twelve Lakh Sixty Six Thousand One Hundred One Only)	07-Jan- 2022	22-July-22
Mr. Deepak Datt & Mrs. Vandana Sharma (Prospect No. 857169)	All that piece and parcel of: Plot No. 70, Green Wood Avenue, Admeasuring 1440 Sq.Ft., Vakia Village Kingra, Jalandhar, 144001, Punjab,India	Rs. 25,99,983/- (Rupees Twenty Five Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Three Only)	2021	22-July-22

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited Place: Ludhiana & Jalandhar Date: 27/07/2022

C) Rs. 50,000/-

A) Rs. 49,00,000/-

Kumari

Contact No.

8178448335

7409946307

Name of Borrower(s)/

/Guarantor(s)

PUNJAB & SIND BANK (A Govt. of India Undertaking)

Mehaban Chongi, Vardhman Nagar, Foacal Point, Ludhiana.

Name & Address of the

Branch Office: Bhamian Khurd, Ludhiana

Demand

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002.

A notice is hereby given that the following borrower has defaulted in the repayment of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned NPA. The notice under section 13(2) of the Securitisation of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 were issued to the borrower/guarantors on their last known address by the registered post. However the notices have been returned unserved & the authorised officer has reasons to believe that the borrower /guarantors are avoiding the service of notice as such they are hereby informed by way of public notice about the same. Date of Date of

Borrower: 1. Smt. Madhu Property Plot No. 93, block-A, 29.06.2022 14.07.2022 Rs. 4,95,575.13 Bala W/o Sh. Ashwani measuring 50 sq. yards, comprised in (Rupees Four Lacs Ninety Five

Description of the

Immovable Property

Chopra R/o 93, Village Khasra No. 50//18, 15, 16, 25, Khata No. Thousand Five Hundred Seventy Bhamian Khurd, Near GTB 435/502, as per jamabandi for the year Five & Paisa Thirteen Only) Estate & Maharaj Property 2008-09, situated at Village, Bhamian inclusive of interest charged upto Dealer, Ludhiana. Also At: Kalan, Hadbast No. 181, Tehsil and District 30.06.2022 plus further interest Street No. 7, Tajpur Road, Ludhiana, as per sale deed duly registered and other charges thereon Preet Nagar, Focal Point, with Sub-Registrered with Sub-Registrar Ludhiana at Wasika No. 20433 Ludhiana 141010. 2. Sh. dated 24.02.2016. Bounded as under : East : Street 22' wide 12', West Jatin Chopra S/o Late Sh. Neighbour 12', North: Neighbour 38', South: Neighbour 38', Ashwani Chopra R/o 93, Village Bhamian Khurd, Near GTB Estate & Maharaj Property Dealer, Ludhiana, Also At: House No. 5112, Street No. 01, Shringar Cinema, Dharampura Kasabad, Central Post Office, Ludhiana, Guarantor: Sh. Dheeraj Chopra S/o Late Sh. Ashwani Chopra R/o 93, Village Bhamian Khurd, Near GTB Estate & Maharaj Property Dealer, Ludhiana. Also At : Street No. 9,

The above borrower /guarantors are advised to pay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days as per provisions of the Securitisation of financial Assets and enforcement of security interest Act, 2002. Moreover the borrower/ guarantors are hereby restrained from dealing with any of the above secured assets mentioned above

in any manner whatsoever without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject act and/or any other law in force. Dated: 26.07.2022 Place: Bhamian Khurd **Authorized Officer** 

> Bank of Maharashtra, Branch: Hathras बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
>
> Zonal Office: Bank of Maharashtra, Joy Tower, C-20, भारत सरकार का उद्यम **POSSESSION NOTICE [Rule-8-(1)]** {for immovable property}

62, Noida, Gautam Buddha Nagar UP-201301

The Authorized Officer of Bank of Maharashtra under the Securitization and Reconstruction of Financia

Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrowers/guarantors/mortagagors to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrowers/guarantors/mortgagors having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagors and the public in general that the undersigned has taken the possession of the Property described herein below in exercise to powers conferred on him/ her under section 13(4) of the said act read with the Rule-8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrowers attention is invited to the provision of Sub-Section (8) of section - 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. The Borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property will be subject to the charge of Bank of Maharashtra for the amounts and interest thereon. Details of the mortgaged Property of which the possession had been taken is as follows.

	Name & Address of the Borrowers & Guarantors		Date of possession	
	Borrower's and Guarantor's: 1. M/s	All Land and Building located at khata	Rs.	
ı	Pagistared Office at: Village & Post Mai	no 29, khasra no 195 situated at Mauja	1,44,32,241/-	
ı	Tobail Idlas Aligarh Aligarh IID (Parrowar)	Subhash Gram, Iglas Mursan Road, Par	+ intt. from	
ı	Tehsil Iglas, Aligarh Aligarh UP (Borrower),	Hasangarh Iglas Disti Aligarh	23.06.2021	
ı	Guarantor \ P/o E 25 Govind Nagar	admeasuring 0.615 Hectare or 6150 sq	& others exp.	
ı	Mathura Littar Pradesh 281001 3 Mr	mtr owned by M/s Harpyari Devi Cold	23.06.2021	
ı	Mathura Uttar Pradesh 281001, 3. Mr Bhupender Singh (Director and Guarantor)	Storage Pvt Ltd and bounded as follows:	23.00.2021	
ı	R/o 222, Kumhar Mohalla Surato District	East. Kilet of Road, West. Field of Roop		
ı	Bharatpur Rajasthan 360510	Siligh, North, Property of Prehipal and		
ı	Dilalatpul Najastilali 300310	Moolchand, South: Mursan Iglas Road.		

Date:- 27.07.2022

**Authorized Officer** 

Indian Bank डंडियन बैंक ALLAHABAD 🛕 इलाहाबाद

**Zonal Office Meerut** 55, The Mall, Meerut E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION SALE OF **IMMOVABLE PROPERTIES** 

Security Interest Act 2002 read with provision to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Indian Bank (e- Allahabad Bank, Secured Creditor), the possession (Constructive/Physical/Symbolic Mention against each accounts) of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Bank (e-Allahabad Bank, Secured Creditor) will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on below mention dates, for recovery of under mentioned dues & Future

interest, charges and costs etc as detailed below. The reserve price and EMD amount for each property has been furnished below. Details of encumbrances over the properties as known to the Bank- Equitable mortgage of Indian Bank/ Allahabad Bank now Indian Bank Outstanding dues as per | Date & Time of E-Auction | A) Reserve Price (in Lac) Name of the Branch Details of the property Contact 13(2) notice for which Last date & time of Submission B) EMD (in lac) Name & Address of the Borrower Details Type of Possession C) Bid multiplier / Guarantors Property 1: A basement shop no. 7-B, 30.08.2022 Rs. 42,25,542.00 A) Rs. 10,36,000/ Mr. Ankur from 11 A.M to 3:00 PM which is a part of property no. 38 as on 06.11.2019 Borrower: M/s Creative Computer Service, Add B-6, Tyaqi B) Rs. 1,05,000/with unlimited extension. Contact No

measuring East side 16'-5". West side and interest and Chetan Medical complex, Chippi Tank, Meerut. Borrower/Mortgagor/Guarantor: 1. Shri Ashok 16'-5", North side 9'-0" & South side other charges 9'-0" total measuring area 148 sq.ft or Kumar Tomar S/o Shri Ran Singh Tomar, R/o A-706, 13.74 sq.mt Situated at Chetan Medical Seventh Floor, Paradise Apartment, Mawana Road, Complex, Chippi Tank, Meerut City Ganganagar, Meerut. 2. Smt. Geeta Rani W/o Shri Boundaries: East: Shop of Jain & Ashok Kumar Tomar, R/o A-706, Seventh Floor, Company, West: Shop of Dr. Lal, North: Paradise Apartment, Mawana Road, Ganganagar, Meerut. Common Gallery, South: Property of others Property 2: A 3-BHK residential flat no. A-706, Block-A, Seventh Floor, bearing khasra no. 121, total measuring area 1105 sq. ft (covered area) and/or 1275 sq. ft (super area) Situated at Paradise Apartment, Mawana Road, Village Rajpura, Pargana, Tehsil & Distt. Meerut. Boundaries: East:Open, West:Corridor, North:Flat no. 705,

A) Rs. 33,15,000/ Property ID: DIBG526CREATIV02 B) Rs. 3,32,000/-C) Rs. 50,000/-South:Open. (Symbolic Possession) Residential House no 609/15, within Rs. 33,39,338.00 30.08.2022 Branch: Delhi Chungi A) Rs. 33,30,000/ Smt. from 11 A.M to 3:00 PM Borrower: M/s Ashish Sports Industries, 609/15, Dinesh Khasra no 519 situated at Suman Puri. as on 04.09.2019 Indu Joshi B) Rs. 3,33,000/-Vihar Colony, Baghpat Road, Meerut. Borrower/ Dinesh Vihar Colony, Village Mallayana, with unlimited extension. and interest and Contact No. Mortgagor/Guarantor: 1. Shri Ashish Singhal S/o Shri Baghpat Road, Meerut measuring C) Rs. 50,000/-28.08.2022 till 11:00AM other charges 7983381350 Umesh Singhal, R/o 609/15, Dinesh Vihar Colony, 109.115 sq mtrs. Boundaries: East: Baghpat Road, Meerut. 2. Smt. Rajni Singhal W/o Shri 18.5'/others house, West: 18.5'/30' wide Property ID: Umesh Singhal, R/o 609/15, Dinesh Vihar Colony, road, North: 63'6"/House of Smt Rajni DIBM685ASHISH01 Baghpat Road, Meerut. 3. Shri Ganesh Singhal S/o Shri Singhal, South: 63'6"/ Mukesh Jain. jaipal Singhal, R/o 155/25, Shaikhpura, Kishanpura, Baghpat Road, Meerut. Property situated at Khasra no 353, Khata Rs. 28,21,383.00 30.08.2022 Branch: Chutmulpur A) Rs. 53,68,000/ Shri from 11 A.M to 3:00 PM as on 22.03.2017 Dinesh

Borrower: 1. M/s Lata Devi Brick Supply, Village at no 00267, Vill- Bhakroad, Pargana- Muzza-Bhakraud, Tehsil Behat, District-Saharanpur. 2. M/s measuring 1.119 Hect. or 11190 sq. mt. Lata Devi Brick Supply, Village Boobka, Kalsia Road, Boundaries: East: Rest part of Sadhu Ram, District-Saharanpur. Partner of M/s Lata Devi Brick West: Land of Pawan & etc., North: Bhak Supply: 1. Mr. Sadhu Ram S/o Mr. Jaswant Singh, Road, South; Land of Jai Chand. R/o Hasanpur Naugawa, Pargana Muzaffarabad, (Symbolic Possession) Branch: Meerut Cantt

Borrower: Smt. Ravi Saharavat W/o Shri Donesh | tower, super area 1825sq.ft. at Supertech | as on 18,12,2019

B) Rs. 5,37,000/with unlimited extension. and interest and Chauhan 28.08.2022 till 11:00AM C) Rs. 50,000/other charges Contact No. 6395428618 Property ID: IDIBAL7182LATA1 30.08.2022 Rs. 5.21,582.00 A) Rs. 42,00,000/-Bindu

30.08.2022

from 11 A.M to 3:00 PM

28.08.2022 till 11:00AM C) Rs. 50,000/-

Property ID:

IDIBM686PRAV01

28.08.2022 till 11:00AM

Property ID:

IDIBG526CREATIV01

Tehsil Behat, District-Saharanpur. 2. Mrs. Lata Devi W/o Mr Dinesh Kumar, R/o Patharwa Tehsil Behat, District-Saharanpur. Mortgager & Guarantor: Smt. Sheela Devi W/o Jaswant Singh, Hasanpur Naugawa, Pargana Muzaffarabad, Tehsil Behat, District-Saharanpur. Guarantor: Mr. Dinesh Kumar R/o Patharwa, Tehsil Behat, District-Saharanpur. All that part and parcel of flat no 604. from 11 A.M to 3:00 PM Borrower/Mortgagor: Shri Sanjeev Sharma S/o 5th floor in D block, at Supertech as on 02.04.2019 B) Rs. 4,20,000/with unlimited extension. Shri Om Prakash Sharma, R/O 65, Mayur Vihar, Green Village at Hapur Bye Pass, and interest and Contact No. C) Rs. 50,000/-28.08.2022 till 11:00AM Shastri Nagar, Phase 1, Meerut. Borrower/ Meerut. Area 1588 sq.ft. Boundaries: other charges 9818377962 Mortgagor/ Guarantor: M/s Supertech Limited, East: Lift, West: Open to sky, North: Property ID: R/o 1114 11 Floor, Hemkunt Chambers, 89, New Common Passage, South: Open to IDIBM684SANJEEV01 (Symbolic Possession)

B) Rs. 4,90,000/with unlimited extension. aharavat. Borrower/Mortgagor/Guarantor: 1. Sports city situated at Roorkee Road, and interest and Contact No. 28.08.2022 till 11:00AM C) Rs. 50,000/-Shri Donesh Saharavat S/o Shri Om Singh, Both Meerut. Boundaries: East: Corridor/Flat 9818377962 other charges R/O 464/6, South Civil Lines, Muzaffarnagar. 2. M/s No B4/505, West: Open to Sky, North: Property ID: Supertech Limited, R/o 1114 11 Floor, Hemkunt Corridor/ Lift, South: Open to Sky. IDIBM684DONESH01 (Symbolic Possession) Chambers, 89, New Delhi - 110019. 30.08.2022 One Residential House in two parts Rs. 59,12,058.00 A) Rs. 50,72,000/-Branch: Begum Bridge L.S. from 11 A.M to 3:00 PM Borrower: 1. M/s Deepika The Lingrie World, 91/1, bearing municipal no 523 & 523/1(new) as on 18.03.2020 Panwar B) Rs. 5,10,000/-Begum Bagh, Near Shiv Mandir, Meerut. 2. M/s & 424( old) total admeasuring area with unlimited extension. and interest and Contact No. 28.08.2022 till 11:00AM C) Rs. 50,000/-Deepika General Store, Begum Bagh, Near Jagat 259.22 sq mtr or 310.02 sq. yds, situated other charges 9756027103 Cinema, Meerut. Borrower/Mortgagor/Guarantor: at Near Saini market, Dr Ganga Saran Property ID: 1. Shri Yogesh Kumar Maheshwari S/o Shri Madan wali gali, Mohalla-Bhagwatpura, Meerut. IDIBB709DEEPIKA01 Mohan Maheshwari, R/o 523, Near Saini Market, Boundaries: East: Rasta 12' wide, West: Dr. Ganga Saran wali Gali, Bhagwatpura, Meerut. House of Shri Chander Bhan Verma, 2. Shri Sandeep Maheshwari S/o Shri Yogesh Kumar North: Gali 10' wide, South: House of Maheshwari, R/o 523, Near Saini Market, Dr. Ganga Shri Shyam Lal. (Symbolic Possession) Saran wali Gali, Bhagwatpura, Meerut. 3. Shri Sachin Maheshwari S/o Shri Yogesh Kumar Maheshwari, R/o 523, Near Saini Market, Dr. Ganga Saran wali Gali, Bhagwatpura,

Residential flat no 506, 5th floor in B4 Rs. 44,09,673.00

Meerut. 4. Smt. Kamlesh Maheshwari W/o Shri Yogesh Kumar Maheshwari, R/o 523, Near Saini Market, Dr. Ganga Saran wali Gali, Bhagwatpura, Meerut. 30.08.2022 A residential plot No 66 & 67 in Khasra Rs. 19,19,233.00 A) Rs. 17,22,000/from 11 A.M to 3:00 PM Borrower: Shri Nitin Tyagi S/o Late Shri Surendra no 6334,6335,6336 & 6344/2 situated as on 28.03.2019 Gayatri B) Rs. 1,73,000/with unlimited extension. Kumar Tyagi. Borrower/Mortgagor/Guarantor: Smt. at Pravesh Vihar, Rajaswa Gram Kajipur. and interest and Kumari 28.08.2022 till 11:00AM C) Rs. 50,000/-Anita Tyagi W/o Late Shri Surendra Kumar Tyagi, Meerut measuring 55.60 sq mtr. other charges Contact No. Both R/O Parvesh Vihar, T-point, Chauhano wali Boundaries: East: 19.88'/25' wide road, 8178448335 Property ID: West: 19.88'/Plot of Suresh, North: 30'1" Gali, Village - Kaiipur, Meerut, IDIBM686NITIN01 /Plot Ajeet Kaur, South:30'1"/ Plot Sarvachan Singh. (Symbolic Possession) 30.08.2022 All that part & parcel of residential house Rs. 16.24.184.00 Branch: Garh Road A) Rs. 18,81,000/from 11 A.M to 3:00 PM Borrower: Shri Praveen Prajapati S/o Shri Shiv no old 194, there after no 148 presently as on 26.06.2019 Gayatri B) Rs. 1,90,000/with unlimited extension. municipal no 149, now numbered as and interest and

> South: Road (Gali) 5'. (Symbolic Possession) For downloading further details and Terms & Conditions, please visit: (i) https://www.ibapi.in (ii) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

154/2 situated at Mohalla Jatiwara, other charges

Kumharo wali gali, Meerut measuring 62.70 sq mtr/75.00 sq

yards. Boundaries: East: House of Alok & Jagram, West:

House of Bhagat Prasad, North: House of Sumer Singh,

IMPORTANT NOTE FOR THE PROSPECTIVE BIDDERS

Bidders are advised to visit the website (www.mstcecommerce.com) of our e auction service provider MSTC Ltd to participate in online bid. For Technical Assistance Please call MSTC HELPDESK No. 033-22901004 and other help line numbers available in service providers help desk. For Registration status with MSTC Ltd, please contact ibapiop@mstcecommerce.com and for EMD status please contact ibapifin@mstcecommerce.com. For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://ibapi.in and for clarifications related to this portal, please contact help line number 18001025026 and 011-41106131. Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://ibapi.in and www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi. Date: 26.07.2022 Place: Meerut Authorised Officer, Indian Bank (E-Allahabad Bank)

**PUBLIC NOTICE** 

In exercise of his right under section 14 of the SARFAESI Act, The district Magistrate Ambala, vide his order No. 2069-71 Dated: 21.07.2022 has appointed the undersigned as duty Magistrate to monitor Physical Possession of the secured assets (s) mortgaged by the undernoted borrower's in favor of Aditya Birla Housing Finance Ltd. Account maintained at M/s Aditya Birla Housing Finance Ltd. SCO No. 1, Orbit Building, Opp. Chandigarh City Centre, VIP Road, Zirakpur, Punjab. Name & Address

S. No.	date	Of Borrower(s)	Account No.	In 13(2)	Description of the Secured Assets
1.	2069-71 Dated 21-07-2022	Manu Tara Chand & Geeta Tara Chand both R/o-171A, Sethi Enclave, (Naraingarh Road), Ambala Baldev Nagar, Ambala, Haryana-134007 Also at:- Driver Vijay Chawla Carriage Cont. & Supplier Also At: 1874/10, Near Railway Crossing Baldev Nagar, Ambala City, Haryana-134003 Also at:- Hadbast No. 60, Village Dhulkot Khasra No. 3/120, Sethi Enclave, Ambala City, Haryana-134003	LNAMB0HL- 03200067147 And LNAMB0HL- 03200067146	(Rupees Nine Lakh Thirteen	All that is part and parcel of Plot in rakba Tadadi 59 Sq. Yards. Part of Plot No. 154-C, Situated Abadi Sethi Enclave, Amabala, Vaka Mauza Dhulkot Hadbast No. 60, Tehsil and District Ambala, Khewat No. 377, Khatoni No. 409, Khasra No. 3//20(4-9), Ambala, Haryana"
		W			

The Borrower(s) / Guarantor (s) as above are hereby directed to repay Aditya Birla Housing's money within 15 days from the publication of this notice, if the borrower failed to repay the money demanded by the institutionwithin this period the assets (s) shall be taken in possession as per the orders passed by the District Magistrate Ambala under the provisions of the SARFAEIS Act. As per the notice direction, if Borrowers // Guarantor have any objection they can place on the file.

PLACE: AMBALA/HARYANA

DATE : 25-07-2022

**DUTY MAGISTRATE CUM TEHSILDAR, Ambala** 

**PUBLIC NOTICE** 

In exercise of his right under section 14 of the SARFAESI Act, The district Magistrate Ambala, vide his order no. 2066-68 Dated: 21.07.2022has appointed the undersigned as duty Magistrate to monitor Physical Possession of the secured assets (s) mortgaged by the undernoted borrower's in favor of Aditya Birla Housing Finance Ltd. Account maintained at M/s Aditya Birla Housing Finance Ltd. SCO No. 1, Orbit Building, Opp. Chandigarh city Centre, VIP Road, Zirakpur, Punjab. S. Order No./ Name & Address Loan Amount Demanded Description of the Secured Assets

NO.	date	Of Borrower(s)	Account No.	In 13(2)		
	2066-68 Dated 21-07-2022	R/o 4278/2 Darzia Chowk, Ambala-Haryana Also At: 1034/10424, Ward No. 6, Darzian Chowk- Ambala City-134003, Also at: Sales Executive, R.G. Fashion 1137/4 Luxmi Street, Shivpuri Road, Ludhiana-141008	LNAMB0HL- 06190051628	(Rupees Six Lakhs Fifty- Four Thousand Two Hundred Nineteen Only)	Bounded as East: H. N. 10425 -36 ft 3 Inch, West - H.N. 10423-31 Ft 7 Inch, South- House of Chiranji Lal-14 Ft. 9 Inch, North- Gali 5 ft.2 Inch wide and 12 Ft 3 Inch.	
The	Rorrowa	r(c) / Guarantor (c) as above are be	reby directe	d to renay Adity	a Rirla Housing's money within	

The Borrower(s) / Guarantor (s) as above are hereby directed to repay Aditya Birla Housing's money within 15 days from the publication of this notice, if the borrower failed to repay the money demanded by the institutionwithin this period the assets (s) shall be taken in possession as per the orders passed by the District Magistrate Ambala under the provisions of the SARFAEIS Act. As per the notice direction, if

DATE: 25-07-2022 **DUTY MAGISTRATE CUM TEHSILDAR, Ambala** PLACE: AMBALA/HARYANA ANNA INFRASTRUCTURES LIMITED

Borrowers //Guarantor have any objection they can place on the file.

Regd. Office: Shop No. 1 & 3, E-14/6, First Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra-282002 CIN-L65910UP1993PLC070612 Email ID: annainfra@gmail.com; Ph. No. 0562-4060806 Website: www.annainfrastructures.com Notice is hereby given that 30"Annual General Meeting (AGM) of the

company will be held on Monday, 22nd August, 2022 at 3:00 PM at the Registered Office of the Company to transact ordinary business as set out in the notice of 30"AGM dated 26"July, 2022. The said notice along with proxy form, attendance slip and Annual Report together with Financial Statement have been dispatched to all Members at their registered address by prescribed mode and electronically to those Members who have e-mail address on 26" July, 2022. The same is available on the website of the Company mentioned above.

BOOK CLOSURE: Notice is further given thatthe Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17-Aug-2022 to 22-Aug-2022 (both day inclusive) for the purpose of AGM. E-VOTING

The details regarding the E-voting required by the Rules of the Companies Act. 2013 are given hereunder: . Date of completion of Dispatch of Notice: 26" July, 2022.

Date & time of commencement of e-voting: 9:00 A.M (IST) on Friday

Date & time of end of e-voting: 5:00 P.M (IST) on Sunday, 21.08.2022. . E-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M (IST) on Sunday, 21.08.2022and any Form received thereafter would be strictly treated

as if reply has not been received. The Notice of Annual General Meeting along the Form and instructions for e-voting are also available on the website of CDSL www.evotingindia.com and on the website of the company www.annainfrastructures.com. Shareholders who do not receive the Notice may download it from the above mentioned websites or may

request for the copy of the same in writing to the Company Secretary at the above mentioned e-mail ld. For any grievances/queries/clarification(s) relating to voting by electronic means, shareholders are requested to contact Beetal Financial & Computer Services Private Limited, Share Register and Transfer Agent (RTA) at telephone No- 011-29961281-84 or write

RTAat beetal@beetalfinancial.com.

Date: 26/07/2022

Place : Agra

Anna Infrastructures Limited Kanchan Agarwal (Company Secretary)

For and on behalf of

New Delhi

ABM INTERNATIONAL LIMITED CIN: L51909DL1983PLC015585

Regd. Office: 10/60, Industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi - 110 015 Phone: 011-41426055, Website: www.abmintl.in E-mail: vkgandhi@abmintl.in NOTICE OF BOARD MEETING NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 5th August, 2022 at 10/60. Industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi-110015 inter alia, to consider and approve Un-audited Financial Results of the company for the Quarter ended 30" June, 2022. A copy of this Notice is available on the Company's Website at

www.abmintl.in and also on Stock Exchange Website at Further, the Trading window of the Company pursuant to the SEBI

(Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 read with Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by designated persons of the Company has been closed for trading of Company's Equity Shares from 1" July, 2022 and would remain closed until 48 hours after the announcement of Unaudited Financial Result of the Company to Public.

For ABM INTERNATIONAL LIMITED Sd/-

(VIRENDER KUMAR GANDHI) MANAGING DIRECTOR Place: New Delhi Date: 26.07.2022 DIN: 00244762

### "IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of

advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

financialexp.epap.in

Ram. Borrower/Mortgagor/Guarantor: Smt.

Rajni W/o Shri Praveen Prajapati, Both R/o 156,

Jattiwara, Kumharo wali Gali, Meerut - 250001.

(Rs. in Lakhs)

further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: SCO 21, 5TH FLOOR, LUDHIANA FEROZGANDH MARKET, LUDHIANA, PUNJAB - 141001 and 2nd floor, Sai Mall, Near KFC, Model Town, Jalandhar-144001/ or Corporate Office Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.

### सावजानक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैकसन होमियोपैथी प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-51, एनडीएसई-1, नई दिल्ली-110049 में है, का निम्न सदस्यों श्री सितन्दर पाल सिंह बक्शी तथा श्रीमती सीमा बक्सी के नाम में शेयर प्रमाणपत्रों के गुम/स्थानच्युत से जाने की सूचना मिली है तथा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये उन्होंने कम्पनी में आवेदन किया है। गुमशुदा शेयर प्रमाणपत्रों का विवरण नीचे दिया गया है?

	फोलियों	प्रमाणपंत्र सं०	विशिष्ट		शेयरों की
रामरमार्जम जम गाग	नं.		सं तव	तक	सं.
सतिन्दर पाल सिंह बक्शी	05	06	01	9800	9800
सीमा बक्शी	08	07	9801	9900	100
कुल					9900

एतद्वारा कम्पनी इस सूचना के प्रकाशन के 14 (चौदह) दिनों की अवधि के भीतर डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के प्रति आपत्ति अथवा दावा (लिखित) में आमंत्रित करती है। यदि इस अवधि के भीतर कोई दावा । आपत्ति

प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी।

कृते एवं के लिये बैकसन होमियोपैथी प्राईवेट लिमिटेड सितन्दर पाल सिंह बक्शी (निदेशक)

तिथि : 26.07.2022 DIN: 00988257



Depositories

Registrar & Transfer Agent

Raj.Samwad/C/22/5503

# भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) नएसबाईसी क्रिक्तेस चर्क, वर्ड एनडीबीपी बिल्डिंग, दुसरी नदिल, ओखला इंबर्ट्टीयल एस्टेट, वर्ड दिल्ली-110020

निविदा सूचना (केवल ई-निविदा माध्यम से) एमएमएलपी / बढ़ी, सोनीपत (हरियाणा) में केवल ई-निविदा मोड के माध्यम से 24 महीने के लिए एकल बोली प्रणाली में सबस्टेशन और विद्युत संस्थापन से संबंधित सेवा के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। बोली दस्तावेज को

निविदा संख्या	CON/AREA-1/TECH/ELECT/AMC/MMLP/BARHI/2022
अनुमानित लागत	<b>१</b> 24,79,466 / — (जीएसटी सहित)
संविदा की अवधि	24 महीने (खंड । । के धारा-6 के अनुसार)
धरोहर राशि'	₹49.589/- खंड-। के धारा 2.1 (a) के अनुसार ( ई-भुगतान के माध्यम से)
दस्तावेज की लागत'	₹1,000 ∕ — ई—मुगतान के माध्यम से सभी कर और शुल्कों सहित
निविदा प्रसंस्करण युक्क"	₹1,463 ∕ — ई—मुगतान के माध्यम से (18% जीएसटी सहित). जो अप्रतिदेय हैं।
बिक्री की तारीख (ऑनलाइन)	27.07.2022 को अपराहन 15:00 बजे से 16:08:2022 को अपराहन 16:00 बजे तक
जमा करने की तारीख और समय	17.08.2022 को अपराहन 15:00 बजे तक (ई-निविदा के माध्यम से)
खोलने की तारीख और समय	18.08.2022 को अपराहन 15:30 बजे

कॉनकॉर बिना कोई कारण बताए किसी मी या समी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पूर्ण विवरण हेतु www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉगऑन करें। समूह महाप्रबंधक / तकनीकी

#### RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM, LTD. [Corporate Identity Number (CIN): U40109RJ2000SGC016485] Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005 OFFICE OF THE SR. ACCOUNTS OFFICER (B&R/W&M) Room No.422, Vidyut Bhawan, Jaipur Tel. No. 0141-2740381(Ext.1422)/0141-2740226 E-mail: sr.ao.br@rvpn.co.in website: www.http://energy.rajasthan.gov.in/rvpnl CALL OPTION NOTICE TO BOND HOLDERS OF "9.07% Rajasthan

Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited 2025 Tranche-I" LISTED, JNSECURED, NON-CONVERTIBLE, REDEEMABLE, TAXABLE BONDS Notice is hereby given to the Bondholders of 2000 Nos. 9.07% Rajasthan Rajya Vidyu Prasaran Nigam Limited 2025 Tranche-I Listed, Unsecured, Non-convertible Redeemable, Taxable Bonds (NCDs) of Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigan

Limited ("the Company"), issued on Private Placement Basis, that, the Company is exercising 'Call Option' to fully redeem the NCDs pursuant to the Disclosure Documen dated 22nd July 2013 which states that "these bonds also carry a Put and Call option a the end of 9th year and would be fully redeemed at the end of 9 years if either of the put or call option is exercised". The specific terms of the redemption are given below: Issue Description 9.07% Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran

	Nigam Limited 2025 Tranche-I
Face Value (Rs./Bond)	Rs. 10,00,000/-
Coupon Rate	9.07% p.a.
Deemed Date of Allotment	06th September 2013
No. of Bonds issued	2000
Issue Price & Redemption Price	At Par
Tenure	12 Years from the Deemed Date of Allotment
Date of Maturity	30% on 06 <sup>th</sup> September 2023 (Rs. 3,00,000/-) 30% on 06 <sup>th</sup> September 2024 (Rs. 3,00,000/-) 40% on 06 <sup>th</sup> September 2025 (Rs. 4,00,000/-)
Put/Call Option for seeking early redemption	At the end of 9th year from the Deemed Date of Allotment
Call Option Date	06th September 2022
Record Date for determining the Beneficial Owners for the purpose of payment of principal amount and final interest accrued thereon	20th August 2022 (Scheduled Record Date 21th August 2022 being holiday)
Listed on	BSE

The redemption amount shall be paid to Beneficial Owners of above NCDs as existing on the Record Date by crediting the redemption amount to the bank account appearing in the demat account of respective beneficial owners.

NSDL and CDSL

Link Intime India Pvt. Ltd.

Company Secretary

Address/Bank Particulars in the demat account as appearing in the details provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") / Central Depository Services (India Limited ("CDSL")/Registrar & Transfer Agent ("R&TA") only will be considered for

payment of Redemption Amount, pursuant to exercise of Call Option The Bonds shall be taken as discharged on payment of the redemption amount by the company to the Beneficial Owners as existing on record date. The Company's liability

to the Bondholders towards all their rights including payment or otherwise shall cease and stand extinguished from the due date of redemption in all events. Place:- Jaipur Date:- 25-07-2022 (Vijay Mathur) Jt. Director (Corporate Affairs) cun RRVPN/TR-5527/2022

## ई-नीलामी बिकी नोटिस (आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमों 32,32ए और 33 के तहत, विनियमन 2016)

बैस्ट फूड्स लिमिटेड (परिसमापन में) [बीएफएल] बीएफएल के परिसमापक एतद्दवारा, बीएफएल की परिसंपत्तियों जिन्हें यहां सूचीबद्ध किया गया है, ई—नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए पात्र बोलीदाता (तों), नीचे बताए गए नीलामी कार्यक्रम के अनुसार 'जैसा है, जो कुछ भी है और उपचार रहित' आधार पर हैं, और बोली दस्तावेंज के विस्तृत नियमों के लिए, सुचीबद्ध शर्तो और प्रक्रिया को https://www.bankeauctions.com और www.bestfoodgroup.com से

लॉट नं.	परिसंपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (करोड़ रुपए)	ईएमडी (करोड़ रुपए)	बोली वृद्धि राशि (करोड़ रुपए)
1.	बैस्ट फूड्स लिमिटेड — एक चालित कंपनी के रूप में (नोट 1 से 3 )	133.17	13.31	1.00
2.	बैस्ट फूब्स लिमिटेड की हमीदपुर यूनिट दिल्ली के हमीदपुर में भूमि (4840 वर्ग यार्ड्स) खसरा नं. 440 (4—9), 441 (0—7) भवन, संयंत्र	37000	0.70	0.05

नोट 1 — उन परिसंपत्तियों को छोडकर जिनके लिए परिसमापक द्वारा बिक्री पुष्टि जारी की गई है। कृपया बहिष्कृत परिसंपत्तियों के लिए बोली दस्तावेज का उल्लेख करें ।

नोट 2- वेस्ट फुड्स लिमिटेड की नोरता इकाई की संपत्ति (परिसमापन में) भूमि, निर्माण, और पीएंडएम स्वर्गीय मोहिंदर पाल जिंदल, भारत राइस मिल्स और पूनम से संबंधित है, जो एक दूसरे से संलग्न है (विवरण के लिए बोली दस्तावेज का उल्लेख देखें) जिसे एसबीआई के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अलग से इसके तहत लॉट 3 के रूप में नीलामी की जा रही है, और लॉट 1 के लिए बोलियां केवल उन बोलीदाताओं के लिए विचारणीय होगी जो लॉट 1 और लॉट 3 दोनों के लिए बोली प्रस्तुत करते हैं । सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले की पहचान लॉट 1 और लॉट 3 के लिए संचयी बोली राशि के आधार पर की जाएगी। लॉट 1 और लॉट 3 में शामिल नोर्टा यूनिट की अंतरा–मिलन परिसंपत्तियों के विवरण के लिए कृपया बोली दस्तावेज देखें। नोट 3- लॉट 1 और 3 के बोलीदाता को वरीयता दी जाएगी और केवल लॉट 1 के लिए बोली की स्वीकृति

होने पर परिसमापक लॉट 2 के लिए बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ई-नीलामी अनुसूचीः बोली दस्तावेज और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि/समय 16 अगस्त 2022 (मंगलवार) शाम 5:00 बजे तक **ई नीलामी की तारीखः** 17 अगस्त 2022 (बुधवार) शाम 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

इच्छक आवेदकों को **यस बैंक खाता संख्या 018463300004293** में एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी राशि जमा करनी है। लाभार्थी नाम : बैस्ट फुडस लिमिटेड-परिसमापन में आईएफएससी कोड: YESB0000184 या वैस्ट फूड्स लिमिटेड-परिसमापन में के पक्ष में डिमांड ड्रापट

द्वारा – किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक के माध्यम से। इच्छक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे बोली दस्तावेज का उल्लेख करें और हार्ड कॉपी में ईएमडी जमों करने के प्रमाण के साथ पूर्ण बोली दस्तावेजों को परिसमापक को जमा करें और बोली जमा करने की अंतिम तिथि / समय से पहले https://www.bankeauctions.com ई-नीलामी वेबसाइट पर अपलोड करें। आवेदक सुश्री पारुल गोयल (टीम परिसमापक) ईमेलः liq.bestfoods@gmail.com, फोन 011-45789408 (0) /+ 91-9891501496 या किसी भी सहायता के लिए श्री विनोद चौहान (टीम ई—ऑक्शन एजेंसी)— delhi@c1india.com, फोन :+91—9813887931 से संपर्क कर सकते हैं ।

पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00003/2016-2017/10003 तिथि : 27 जुलाई 2022 परिसमापकः बैस्ट फूड्स लिमिटेड (परिसमापन में) ईमेल: bajaj.vikram@gmail.com फोन: 011-45789408(O)/9999989408(मोबाइल) कार्यालय : 308, पर्लस बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034 ई-नीलामी बिक्री नोटिस

**बैस्ट फूड्स लिमिटेड (परिसमापन में)** को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बँक द्वारा चार्ज की गई परिसंपत्तियों की बिक्री 'जो जैसी है, जो कुछ भी है और उपचार रहित है' सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा

लॉट नं.	परिसंपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (करोड़ रुपए)		बोली वृद्धि राशि (करोड़ रुपए)
3.	बैस्ट फूड्स लिमिटेड की नोरता यूनिट में स्वर्गीय	12.58	1.25	0.05
	मोहिंदर पाल जिंदल, भारत राइस मिल्स और पूनम के नाम पर भूमि, भवन और पीएंडएम (विवरण के लिए नोट: बैस्ट फूड्स लिमिटेड (परिसमापन में) की ल	, बोली दस्तावेज गॉट 3 की संपत्ति	का उल्लेख करें नोरता इकाई	) के साथ आपस में

संलग्न है, जो लॉट 1 का हिस्सा है। लॉट 1 को परिसमापक द्वारा नीलामी के लिए अलग से रखा जा रहा है और केवल जन बोलीदाताओं की बोलियां पर विचार किया जाएगा जो लॉट 1 और लॉट 3 दोनों के लिए बोली जमा करते हैं। लॉट 1 और लॉट 3 में शामिल नोर्टा युनिट की अंतरा—मिलन परिसंपत्तियों के विवरण के लिए कृपया बोली दस्तावेज देखें । सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले की पहचान लॉट 1 और लॉट 3 के लिए संचयी बोली राशि के आघार पर की जाएगी।

2022 (मंगलवार) शाम 5:00 बजे तक । **ई नीलामी की तारीख**: 17 अगस्त 2022 (बुधवार) शाम 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) इच्छ्क आवेदकों को एसबीआई खाता संख्या में एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से लॉट 3 के लिए

ई—नीलामी अनुसूची: बोली दस्तावेज और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 🗸 समय: 16 अगस्त

इंएमंडी राशि जमा करनी लाभार्थी नाम –'एसबीआई एसएएमबी, एसबीआई खाता संख्या 31626203126, शाखा — बंडीगढ़, आईएफएससी कोड: SBIN0004262 या किसी भी राष्ट्रीयकृत य अनुसुचित बैंक द्वारा **एसबीआई SAMB — शाखा चंडीगढ़** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया https://www-bankeauctions.com और www.bestfoodgroup.com पर उपलब्ध बोली दस्तावेज को उल्लेख करें ।

इच्छक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे बोली दस्तावेज का उल्लेख करें और हार्ड कॉपी में ईएमडी जमों करने के प्रमाण के साथ पूर्ण बोली दस्तावेजों को परिसमापक को जमा करें और बोली जमा करने की अंतिम तिथि / समय से पहले https://www.bankeauctions.com ई—नीलामी वेबसाइट पर अपलोड करें। किसी भी सहायता के लिए श्री दिलबाग सिंह—9871599088 और विनोद चौहान (टीम ई—ऑक्शन एजेंसी)— delhi@c1india.com, फोन:+91—9813887931 से संपर्क कर सकते हैं । दिल**बाग सिं**ड

अधिकृत अधिकारी, एसबीआई तिथि: 27 जुलाई 2022 एसबीआई (एसएएमबी), सैक्टर 8, चंडीगढ़ सावजानक सूचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि शिवानी एम्पाउल्स एंड बॉयल्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-51, एनडीएसई-1, नई दिल्ली-110049 में है, का निम्न सदस्यों बैकसन ड्रग्स एंड फार्मास्युकिल्स प्राइवेट लि. तथा श्रीमती सीमा बक्सी के नाम में शेयर प्रमाणपत्रों के गुम/स्थानच्युत से जाने की सूचना मिली है तथा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये उन्होंने कम्पनी में आवेदन किया है। गुमशुदा शेयर प्रमाणपत्रों का विवरण नीचे दिया गया है?

शेयरयारकों का नाम	फोलियों	प्रमाणपंत्र सं०	विशिष्ट	शेयरों की	
श्रवस्थास्का का नान	नं.		से	तक	सं.
बैकसन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रा.लि	05	06	01	9800	9800
सीमा बक्शी	08	07	9801	9900	100
कुल	· ·				9900

एतद्वारा कम्पनी इस सूचना के प्रकाशन के 14 (चौदह) दिनों की अवधि के भीतर डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के प्रति आपत्ति अथवा दावा (लिखित) में आमंत्रित करती है। यदि इस अवधि के भीतर कोई दावा । आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी।

कृते एवं के लिये कृते, शिवानी एम्पाउस एंड वॉयल्स प्राईवेट लिमिटेड सतिन्दर पाल सिंह बक्शी (निदेशक) तिथि : 26.07.2022 DIN: 00988257



कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, ('अधिनियम') की धारा 108 धारा 110 और अन्य लाग, प्रावधानों तथा अधिनियमन और नियमों के अन्य लाग, प्रावधानों, कोंरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ('एमसीए परिपत्र') परिपत्र संख्या 03/2022 दिनांक 05.05.2022 के साथ पठित, परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08.04.2020, 17 / 2020 दिनांक 13.04.2020 और अन्य संगत परिपत्रों, सेबी (एलओडीआर) विनिवम, 2015 के विनिवम 44, आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानकों एवं लागू कानूनों, निवमों और विनियमों लमय—समय पर यथालंशोधित समय कें लिये लागू किसी भी वैधानिक संशोधन और ∕ या उसके पुन: अधिनियमन सहित), द्वारा अन्य संगत परिपत्रों के अनुपालन में एतदहारा सुचित किया जाता है कि नीचे संलग्न प्रस्तावों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से 'पोस्टल बैलेट' के माध्यम से सदस्यों द्वारा पारित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावों का विवरण सुन्नी यशत्री शुक्ता, (ढीआईएन: 09626509), संयुक्त एडमिन. / यूएसओएफ, डीओटी की कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति

पोस्टल बैलेट नोटिस ('नोटिस') की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां व्याख्यात्मक विवरण के साथ मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 की सीडीएसएस द्वारा उन सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनकी ई-मेल आईडी उनके डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिभागीयों के साथ (इलेक्ट्रॉनिक रूप में घारित शेयरों के मामले में) या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास (मौतिक रूप में घारित शेयरों के मामले में) पंजीकृत है। नोटिस कंपनी की वेबसाइट अर्थात **www.mtnl.in**, स्टॉक एक्सवेंज (जो) की वेबसाइट अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **www.nseindia.com** और बीएसई लिमिटेड अर्थात, **www.bseindia.com** और सीडीएसएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, एमसीए परिपत्रों के अनुसार, नोटिस पोस्टल बैलेट फॉर्म की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दिया गया है।

कंपनी अधिनिवम और सेबी विनिवमों और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी सहर्ष रूप से उन सभी पात्र सदस्यों को सीढीएसएल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में 22 जुलाई, 2022 ('कट-ऑफ तिथि') लाभार्थी मालिकों की सूची में शामिल हैं। वह व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, वे इस नोटिस को केवल जानकारी पाने के उद्देश्य के लिए मानेंगे।

रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 (सुबह 9:00 बजे भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और शनिवार, 27 अगस्त, 2022 (5:00 बजे) भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। इसके बाद सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों से अनुरोध है कि विस्तृत निर्देशों के लिए पोस्टल बैलेट नोटिस के ई-वीटिंग वाले हिस्से को देखें। यदि ई-वीटिंग प्रणाली

से ई-वीटिंग में भाग लेने के संबंध में आपके कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ("एफएक्यू") का संदर्भ ले सकते हैं और www.evotingindia.com पर हैल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध ई-बोटिंग मैनुअल को देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिखें या श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रकंपक, सीडीएसएल से संपर्क करें या pdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें वा 022-23058542 / 43 पर कॉल करें।

पोस्टल बैलेंट नोटिस में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सचना के वितरण की तिथि से एजीएम की तारीख तक सदस्यों को किसी शुल्क के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे दरतावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपने नाम, ढीपी आईढी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करते हुए mtnlcsco@gmail.com पर ई-मेल भेज सकते हैं। मेसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएटस, कंपनी सेक्रेट्रीज ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए

संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो ई-बोटिंग की अंतिम तिथि, अर्थात 27,08,2022 को पारित माना जाएगा। पोस्टल बैलेंट के परिणाम संबीधक की रिपोर्ट के साथ कंपनी द्वारा निर्धारित समय के अंदर घोषित किए जाएंगे और कंपनी, स्टॉक एक्सचॅजॉ और सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, या अपनी ई-मेल आईडी बदलना चाहते हैं, उनसे अनुतेब है कि वे

इसे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी / आरटीए के साथ पंजीकृत करें / बदलें, ताकि सभी संघार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो सकें।

किसी भी अन्य प्रश्न / शिकावत के लिए, सदस्य श्री पुनीत मितल, मेसर्स बीटल कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आरटीए, ईमेल: **beetalrta@gmail.com**. दूरमाष: 011-29961282-83, फैक्स: 011- 29961284 से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली एस.आर. सयाल दिनांक: 27.07.2022 कंपनी सचिव

### त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड

CIN: एल29110यूपी1995पीएलसी041834 **पंजीकृत कार्यालय** : ए-44 हौजरी काम्पलैक्स, फेस II विस्तार, नौएडा-201305, उ० प्र० कारपोरेट कार्यालय: 8वीं मंजिल, एक्सप्रैस ट्रेड टावर्स, 15-16, सेक्टर-16ए, नौएडा,

उत्तर प्रदेश - 201301

ई—मेल : shares.ttl@trivenigroup.com वेबसाइट: www.triveniturbines.com दूरभाष: 91 120 4308000 / फैक्स: 91 120 4311010-11

विडियो कान्फ्रैसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विज्वल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा होने वाली सताई सवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की सताईसवीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") मंगलवार, अगस्त 23, 2022 को 11.30 बजे प्रातः आईएसटी पर विडियो कान्फ्रैसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विज्वल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय निष्पादन हेतू आयोजित करनी तय की गई है, जिसे एजीएम के आयोजन के लिए परिचालित किया जायेगा।

एमसीए परिपत्रों साथ में पठित सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक मई 13, 2022 ("सेबी परिपत्र") ने सदस्यों को एजीएम सूचना एवं वार्षिक रिर्पोट की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। तदनुसार, कम्पनी की एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपीर्ट (2021-22) उन सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपाजटरीज के पास पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा भेजी जा

सदस्य नोट करें कि एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिर्पोट (2021-22) कम्पनी की वेबसाइट www.triveniturbines.com पर एवं स्टॉक ऐक्वेन्जों की वेबसाइटों बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") www.bseindia.com पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड ("एनएसइ") www.nseindia.com पर क्रमशः साथ में, एवं केफिनटेक की वेबसाइट लिमिटेड https://evoting.kfintech.com ("केफिनटेक") एजीएम के लिए ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग सहित) को सुविधाजनक बनाने के लिए नियुक्त एजेन्सी

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैंएज उन्हें एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग प्रणाली ("इंस्टा पोल") के माध्यम द्वारा एजीएम निर्धारित व्यवसाय पर रिमोटली अपना वोट देने का एक अवसर मिलेगा। सदस्यों को इस उदेश्य के लिए रिमोटली वोटिंग का तरीका सचना में प्रदान किया जायेगा। जिसका विवरण साथ में कम्पनी की वेबसाइट www.triveniturbines.com एवं केफिनटेक

की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगा। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं ओर परिणाम स्वरूप वार्षिक रिपीट, एजीएम सूचना एवं ई-वोटिंग की सूचना नहीं सर्विस कराई जा सकी है, वे लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर केफिनटेक के साथ अपने ई-मेल पते एवं मोबाइल नम्बर को भेजकर अस्थाई रूप से पंजीकृत करा सकते हैं।

ई-मेल पते एवं बैंक मैनडेट के स्थाई रूप से पंजीकरण के लिए सदस्य डीमैट माध्यम में शेयर्स धारित से अनुरोध है कि वे अपने डीपीज के साथ अपना आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी को पूर्ण एवं/अपडेट करा लें।

भौतिक प्रपत्र में शेयर्स धारित विधिवत रूप एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र आईएसआर-1 साथ में स्व-सत्यापित पै कार्ड की प्रतिलिपि, आधार कार्ड एवं रद्द चैक लीफ को कम्पनी के आरटीए मैसर्स अलंकित असाइन्मैन्टस लिमिटेड-यूनिट त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, 4E/2, झन्डेवालान एक्सटेन्सन, नई दिल्ली 110055 को भेजें।

सदस्य नोट करें कि निदेशक मंडल ने मई, 13, 2022 को हुई अपनी बैठक में क्त० 0.85 एवं विशेष लाभांष रू० 0.70 के सममूल्य प्रति शेयर पर रू० 1/- प्रति शेयर पर अंतिम लाभाषं की सिफारिस की है। अंतिम लाभाषं एवं विशेष लाभांष की प्राप्ति के लिए पात्रता निर्धारण के उदेश्य हेतू रिकार्ड तिथि अगस्त 16, 2022 है। एजीएम में यदि सदस्यों द्वारा लाभाषं अनुमोदित होने पर उन सदस्यों को इलेकट्रानिक रूप से भूगतान किया जायेगा जिन्होने इलेक्ट्रानिक माध्यम से लाभाषं प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कराये है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं कराये हैं उन्हें लाभाषं वारंट/डिमांड ड्राफ्ट डाक सेवा की उपलब्धता के अधीन भेजा जायेगा। लाभांष प्राप्त होने मे देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनरोध है कि वे अपने बैंक खाते की सचना के विवरण को अपडेट करा

सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपयोगकर्त्ता आईडी एवं पास वर्ड के साथ सूचना एवं ई-मेल और मोबाइल न० एवं ई-वोटिंग निर्देशों की साफ्ट प्रतिलिपि भेजने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए सदस्य einward.ris@kfintech.com को लिखा सकते हैं। सदस्य साथ में einward.ris@kfintech.com पर ईमेल अनुरोध भेजकर, जिसमें ईमेल पता, मोबाइल न०, स्वसत्यापित पैन प्रतिलिपि और क्लाइन्ट मास्टर प्रतिलिपि इलेक्ट्रानिक फोलियों एवं भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के मामले में प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की स्कैन प्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध भेज सकते हैं।

वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसरण में सदस्यों के हाथ में लाभाषं आय कर योग्य है और कम्पनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किये गये लाभाषं पर स्रोत पर कर की कटौती अपेक्षित है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे कम्पनी की वेबवाइट www.triveniturbines.com पर उपलब्ध लाभांष वितरण पर टीडीएस अनुदेशों का संदर्भ लें, और 9 अगस्त, 2022 अथवा उससे पहले केफिनटेक को टीडीएस दरों, जैसा लागू हों, के निर्धारण हेतु सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

सताईसवीं एजीएम की सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर लाग कानुनों के अनुपालन में उचित समय पर जारी कर दिया जायेगा।

स्थान : नौयडा (उ०प्र०)

तिथि : जुलाई 26, 2022

कृते त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड

राजीव साहनी कम्पनी सचिव

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8—(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयः 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं को, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, सूचना में वर्णित राशि के प्रतिभुगतान हेतु, एक मांग सूचना निर्गत की थी। उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत कब्जा ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतददारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा

वह यहां इसमें निम्न वर्णितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु **आईआईएफएल एचएफएल** के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ ''आईआईएफएल–एचएफएल'' को देय धनराषियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं) के नाम लखनऊ शाखा	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	<b>কুল ৰ</b> কাথা देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	
श्रीमती सुनीता शर्मा (संभावना	वह समस्त टुकड़ा और अंशः पारा, वार्ड आलमनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, 226001 स्थित प्लॉट नंबर 6 पर निर्मित मकान , 600 वर्ग फीट क्षेत्र, खसरा 466 का हिस्सा।	तीन सौ तीन रुपये मात्र)	20 दिसंबर, 2021	22 जुलाई, 22	
श्रीमती मीना श्रीवास्तव (संभावना संख्या 760813)	वह समस्त टुकड़ा और अंशः पारा, वार्ड आलमनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत स्थित प्लॉट नंबर—3, खसरा नंबर—1949 के हिस्से सहित, 83.64 वर्ग मीटर मापक्षेत्र।	हजार आठ रुपये मात्र)	2020	22 जुलाई, 22	
	वह समस्त टुकड़ा और अंश : फ्लैट नं.—703 टॉवर सी, 7वीं मंजिल, 1020 वर्ग फीट मापक्षेत्र, बीसीसी ग्रीन्स अपार्टमेंट, नौबस्ता कला देवा रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, 226001	हजार पांच सौ अड़तीस मात्र)	06 अक्टूबर, 2021	23 जुलाई, 22	
	गिधकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय में संपर्क ानऊ — 226010 /अथवा निगमित कार्यालय		<u>र</u> ुड़गांव, हरिया	णा ।	

स्थान : लखनऊ दिनांक: 27/07/2022 हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड प्तीआईएनः L51909DL1983PLC015585 पंजीकृत कार्यालयः 10/60, औद्योगिक क्षेत्र, कीर्ति नगर, नई दिल्ली—110015 फोनः 011-41426055, वेबसाइटः www.abmintl.in ई-मेलः vkgandhi@abmintl.in

बोर्ड बैठक की सूचना एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 और 47 वे अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शूक्रवार, 5 अगस्त, 2022 को 10/60, औद्योगिक क्षेत्र, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015 में अन्य बात के साथ—साथ 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए आयोजित की जाएगी।

इस नोटिस की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.abminti.in पर औ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है इसके अलावा, कंपनी के नामित व्यक्तियों द्वारा व्यापार को विनियमित करने निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए सेबी (आतंरिक व्यापर का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी की ट्रेडिंग विंडो को कंपनी के इक्विटी शेयरों के व्यापार के लिए 1 जुलाई, 2022 से बंद कर दिया गया है और यह जनता के लिए कंपनी के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम की घोषण के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगा।

कृते एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड (वीरेंद्र कुमार गांधी)

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 26.07.2022

प्रबंध निदेशक डीआईएन : 00244762

## सार्वजनिक सूचना

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट अंबाला ने अपने आदेश संख्या 2069–71 दिनांकः 21.07.2022 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में अधोलिखित कर्जदार द्वारा मेसर्स आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में अनुरक्षित खाते में एससीओ नंबर 1, ऑर्बिट बिल्डिंग, सामने चंडीगढ़ सिटी सेंटर, वीआईपी रोड, जीरकपुर, पंजाब में बंधक प्रतिभूत संपत्तियों के भौतिक कब्जे की निगरानी के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया है।

1 2066-68 श्रीमती अनीता और श्री विशु गुप्ता (उधारकर्ता / सह उधारकर्ता LNAMB0HL- रु. 6,55 कि दिनांक और स्वर्गीय श्री प्रदीप कुमार के कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी 06190052588 तथा (रुपये प्री 21-07-2022 4278/2 दरज़िया चौक, अंबाला-हरियाणा LNAMB0HL- इसके अलावाः 1034/10424, वार्ड नंबर 6, दरज़ियन चौक- 06190051628 उन्नीर अंबाला सिटी-13403,	शि 4 219/ मुकान नंबर 1034/10424 - बी -6 वार्ड नंबर 6
दिनांक और स्वर्गीय श्री प्रदीप कुमार के कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी 06190052588 तथा (रुपये व 21-07-2022 4278/2 दरज़िया चौक, अंबाला-हरियाणा LNAMB0HL- इसके अलावाः 1034/10424, वार्ड नंबर 6, दरज़ियन चौक- अंबाला सिटी-13403,	4,219/-     मकान नंबर 1034/10424, बी -6 वार्ड नंबर <i>6</i>
इसके अलावाः 1034/10424, वार्ड नंबर 6, दरजियन चौक- 06190051628 उन्नीर अंबाला सिटी-13403,	छः लाख का समस्त भाग, शाहचुक मोहल्ला, अंबाल
इसके अलावाः सेल्स एक्जीक्यूटिव, आर.जी. फैशन 1137/4 लक्ष्मी स्ट्रीट, शिवपुरी रोड, लुधियाना-141008	जार दो सौ सिटी-क्षेत्रफल 58 वर्ग गज, सीमाएँ : पूर्वः म.नं म मात्र) 10425 -36 फीट 3 इंच, पश्चिम-म.नं. 10423- 31 फीट 7 इंच, दक्षिण- चिरंजी लाल का घर- 14 फीट 9 इंच, उत्तर- गली 5 फीट 2 इंच चौड़ और 12 फीट 3 इंच।

उपरोक्तानुसार उधारकर्ता/गारंटर को इस नोटिस के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर आदित्य बिड़ला हाउसिंग को पुनर्भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, यदि उधारकर्ता इस अवधि के भीतर संस्था द्वारा मांगी गयी राशि को चुकाने में विफल रहता है, तो संपत्ति(यों) का सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला मजिस्ट्रेट अंबाला द्वारा पारित आदेशों के अनुसार कब्जा कर लिया जाएगा। नोटिस के निर्देश के अनुसार, यदि उधारकर्ता/गारंटर को कोई आपत्ति है तो वे फाइल में डाल सकते हैं।

दिनांक : 25-07-2022 स्थान : अंबाला/हरियाणा इयूटी मजिस्ट्रेट सह-तहसीलदार, अंबाला



क आदेश मं

www.greenlamindustries.com

## GREENLAM INDUSTRIES LIMITED

Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2022

(₹ in lakhs)

	Particulars		Standalone			Consolidated		
S. No.			Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
			30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022	30.06.2022 30.06.2021		31.03.2022
			(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations		43,064.12	30,624.96	1,55,918.55	47,061.22	33,613.24	1,70,340.41
2.	Net Profit/(Loss) for the Period (Before Tax and Exceptional Item)		2,692.14	1,876.99	11,220.46	3,274.44	2,250.53	12,172.66
3.	Net Profit/(Loss) for the Period (Before Tax and After Exceptional Item)		2,692.14	1,876.99	10,961.50	3,274.44	2,250.53	11,913.70
4.	Net Profit/(Loss) for the Period (After Tax and After Exceptional Item)		2,012.27	1,490.88	8,536.50	2,457.15	1,733.98	9,058.23
5.	Total Comprehensive Income		1,948.84	1,478.62	8,559.57	2,652.75	1,780.32	9,279.68
6.	Paid up Equity Share Capital		1,206.82	1,206.82	1,206.82	1,206.82	1,206.82	1,206.82
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		•		61,986.46			64,228.53
8.	Securities Premium Account		(*)	N.A.		*	N.A.	9
9.	Net Worth		64,301.55	N.A.	62,331.86	66,922.76	N.A.	64,252.10
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt		9,900.00	N.A.	9,900.00	9,900.00	N.A.	9,900.00
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares			N.A.	-		N.A.	
12.	Debt Equity Ratio		0.32	N.A.	0.25	0.33	N.A.	0.26
13.	Earnings Per Share (of ₹1/- each) (in ₹)	i. Basic	1.67*	1.24*	7.07	2.05*	1.44*	7.52
		ii. Diluted	1.67*	1.24*	7.07	2.05*	1.44*	7.52
14.	Capital Redemption Reserve		9¥8	N.A.		4 Si	N.A.	020
15.	Debenture Redemption Reserve			N.A.	(m)	8	N.A.	693
16.	Debt Service Coverage Ratio		6.10	N.A.	4.40	6.96	N.A.	4.61
17.	Interest Service Coverage Ratio		10.13	N.A.	17.10	11.50	N.A.	18.50

### Not annualised

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange's websites i.e. 'www.bseindia.com' and 'www.nseindia.com' and also at the website of the Company at 'www.greenlamindustries.com'.
- For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Dislosure Requirements) Regulations, 2015 pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges and can be accessed on their websites stated above.
- The Company does not have any Extraordinary item to report during the above periods.
- The Company has not discontinued any of its operations during the above periods.

Place: New Delhi Date: July 26, 2022

By order of the Board Saurabh Mittal Managing Director & CEO

[DIN: 00273917]

Corporate Identity Number: L21016DL2013PLC386045 Registered & Corporate Office: 203, 2nd Floor, West Wing, Worldmark 1, Aerocity, IGI Airport, Hospitality District,

New Delhi - 110037, India Phone: +91-11-42791399; Email: investor.relations@greenlam.com; Website: www.greenlamindustries.com









www.readwhere.com